WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

SHALIMAR PAINTS LIMITED

CIN: L24222HR1902PLC065611

Regd. Office. : Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50

Sector-32, Gurugram, Haryana-122001

Website: www.shalimarpaints.com

e-mail: askus@shalimarpaints.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation

29 of the Securities and Exchange Board of India

Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, notice

hereby given that a meeting of the Board of

Directors of the Company will be held or

Thursday, October 25, 2018, at 11:00 A.M. at the

egistered office of the Company at Stainless

Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector 32

Gurugram, Haryana-122001, to consider and

take on record the Unaudited Financial Results

of the Company for the quarter ended on

Nitin Gupta

Company Secretary

N-130/2018-19

UNDER LENS

ED notice to NDTV for FEMA violations of ₹4,000 crore

Press Trust of India New Delhi, October 18

THE ENFORCEMENT DIREC-**TORATE** (ED) has issued a show cause notice to private television news channel NDTV for alleged violations of the forex law amounting to over

agency said on Thursday. "The investigation showed FEMA contraventions relating to receipt of foreign direct investment by NDTV to the extent of ₹1,637 crore and the other relating to overseas investments to the tune of ₹2,732 crore," the ED said in a

₹4,000 crore, the central probe

statement. The show cause notice, issued under the Foreign Exchange Management Act (FEMA), was issued to the founders and executive cochairpersons of the group— Prannoy Roy and Radhika Roy-— journalist Vikram Chandra

AGENCE FRANCE-PRESSE

IN FACEBOOK'S 'WAR Room',

a nondescript space adorned

with American and Brazilian

flags, a team of 20 people mon-

itors computer screens for signs

Facebook's Menlo Park head-

quarters in California is the

nerve centre for the fight

against misinformation and

manipulation of the largest

social network by foreign actors

trying to influence elections in

the United States and else-

showing the time in various

regions of the US and Brazil,

maps and TV screens showing

CNN, Fox News and Twitter, and

other monitors showing graphs

of Facebook activity in real time.

blamed for doing too little to

prevent misinformation efforts

by Russia and others in the

2016 US election, now wants

the world to know it is taking

aggressive steps with initiatives

one trying to manipulate the

public debate," said Nathaniel

Gleicher, a former White House

cybersecurity policy director for

the National Security Council

who is now heading Facebook's

duplicate share certificates:

Place: New Delhi

Date: October 18, 2018

"Our job is to detect ... any-

like the war room.

Facebook, which has been

Inside, the walls have clocks

The freshly launched unit at

of suspicious activity.

Menlo Park, October 18

"The investigation showed FEMA contraventions relating to receipt of foreign direct investment by NDTV to the extent of ₹1,637 crore and the other relating to overseas investments to the tune of ₹2,732 crore," the ED said

and few others.

The companies alleged to have contravened the FEMA are NDTV Lifestyle Holdings (now Lifestyle and Media Holdings), South Asia Creative Assets, Astro Overseas and NDTV Imagine (now Turner reporting requirements," the General Entertainment Netagency said. works India).

The ED said the offences identified in respect of the first alleged contravention in the receipt of FDI pertains to "substantive contraventions of ₹319 crore by NDTV through contravention of press note 1 of 2005 and downstream investment of ₹138 crore without FIPB approval.

Facebook launches 'war room'

to combat manipulation

cybersecurity policy.

Brazil on October 7.

"We work to find and

remove these actors." Facebook

has been racing to get measures

in place and began operating

this nerve centre — with a

hastilytaped'WARROOM'sign

on the glass door — for the first

round of the presidential vote in

false information and rumours

being spread which could have

had an impact on voters in

Brazil. "On the election day, we

saw a spike in voter suppression

(messages) saying the election

was delayed due to protests.

That was not a true story,"

said Samidh Chakrabarti,

Facebook's head of civic

was able to remove these posts

in a couple of hours before they

went viral. "It could have taken

At the unveiling of the war

Chakrabarti said Facebook

engagement.

days."

BHARAT NIDHI LTD.

Regd. Off: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002

Phone No. 011-43562982, E-Mail ID:- bharatnidhi1@gmail.com Website :- www.bharatnidhi.com

CIN No. L74899DL1942PLC000644

NOTICE is hereby given that the following Shareholder of the Company holding fully paid up

equity shares of Rs. 10/- each of the Company, has reportedly lost their respective Share

Certificates and application has been made to the Company by the legal heir to issue

Name of the Shareholder Father/ Husband's Name No. of Shares held Folio No.

Any person, who has a claim in respect of the said equity shares, should lodge such claim

with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of issue of this notice

Late Sagar Mal Khaitan

else the Company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.

It didn't take long to find

"The remaining contraventions relate to delays under FEMA in respect of allotment of shares within permissible time limit of 180 days and delays in filing nomination with the RBI and

As part of the second violation that has been show caused, the ED said "overseas investment made by the NDTV and offences of ₹582 crore relate to contravention of substantive provisions of FEMA and the remaining contraventions of ₹2,414 crore relate to

delays in filing reports and

other requisite information

room for a small group of jour-

nalists including AFP this week,

a man in a gray pork pie hat kept

his eyes glued to his screen

where a Brazilian flag was

sion was obvious — watching

for any hints of interference

with the second round of voting

ramp up activity for the Novem-

ber 6 mid-term US elections, is

the most concrete sign of Face-

book's efforts to weed out mis-

science, cybersecurity and legal

specialists, the centre is operat-

ing during peak times for the US

and Brazil at present, with plans

dimension to the artificial intel-

ligence tools Facebook has

already deployed to detect inau-

thentic or manipulative

to new threats," Gleicher said of

centre is an important part of

coordinating activity — even for

a company that has been built

on remote communications

among people in various parts

of the world."There's no substi-

tute to face to face interactions,"

"Humans can adapt quickly

Chakrabarti said the new

The war room adds a human

to eventually work 24/7.

With experts in computer

The war room, which will

in Brazil on October 28.

He said nothing but his mis-

attached.

information.

activity.

he said.

the latest effort.

before the RBI."

The total contravention identified under the latest notice is ₹4,369 crore.

The agency said it is further probing an instance of FDI received by the media group worth ₹725 crore, which only the cabinet committee on economic affairs (CCEA) was competent to clear (cases of FDI in excess of ₹600 crore).

"But, no CCEA approval was taken (by NDTV)," the ED alleged.

"FDI was projected as below ₹600 crore as part of larger conspiracy. While applying for FIPB approval, NDTV projected FDI as varying between \$130 million and \$160 million. Documents of FIPB section also projected FDI differently as ₹585 crore (₹130 million at the rate of ₹45 per dollar).

"Further, investigation on this aspect is continuing," the agency said.

IRB Infra ties up ₹981 cr from lenders for Vadodara-Mumbai Expressway section

IRB Infrastructure Developers (IRB Infra) said on Thursday it has tied up ₹981 crore finances from lenders for a project to widen a section of Vadodara-Mumbai Expressway. The support from the NHAI for the project will be ₹817 crore, while the equity contribution from the company will be ₹245 share in festive sale' PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, October 18

'Flipkart corners

more than 50%

INCREASED BUYING IN smartphones and fashion verticals helped Walmart-backed Flipkart corner more than 50% share during the first leg of the festive sale, according to research firm RedSeer Con-

As per RedSeer's latest report, Flipkart had a 51% share, while Amazon had 32% of the festive sale from October 9-14.

sulting.

"Flipkart accounted for more than

half GMV for **Flipkart** the entire industry. Between **Flipkart** and Amazon, the share was 62-38. Higher share for Flipkart was driven by higher sales

verticals," RedSeer said. When contacted, an Amazon spokesperson termed the report as 'speculative' that "lacks robust and credible

methodology".

in both mobiles and fashion

"We received an overwhelming response to the Great Indian festival, with first 36 hours nearly surpassing the entire first wave last year and the entire wave growing by 96% versus last year...the festive season so far has exceeded our most aggressive plans," spokesperson added.

Other players like Snapdeal, Paytm Mall and ShopClues also ran their festive offers and accounted for 17% share of the sales.

Flipkart in a statement said the company "pushed the boundaries on many fronts and hit some of our biggestever numbers during its Big Billion Days (BBD).

"We maintained a clear leadership in deep-penetrated and high ASP categories," it added. As per the RedSeer report,

the fashion and smartphone verticals grew by 78% and 70%, respectively.

However, consumer elec-

tronics

grew by only 45% despite

large

ments by both players in supply chain and affordability initiatives like debit card EMIs, it added.

RedSeer said its report is based on interview with experts from supply chain, banking ecosystem and brands, seller views, customer surveys and other research.

The report said Day 2 of the five-day sale was the biggest in terms of gross merchandise value (GMV) as it saw the launch of multiple new exclusives in mobile phones and offers on other platforms as well.

After the second day, the growth of GMV stalled a bit, with last three days accounting for only 42% of sales compared to 60% in the first two days, it added.



INTERGLOBE AVIATION LIMITED

CIN: L62100DL2004PLC129768 Registered Office: Central Wing, Ground Floor, Thapar House,

124, Janpath, New Delhi – 110 001, India Tel: +91 9650098905; Fax: +91 11 4351 3200 E-mail: investors@goindigo.in; Website: www.goindigo.in

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, October 24, 2018, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2018, subject to a limited review by the Statutory Auditors.

The above details are also available on the website of the Company www.goindigo.in and of the stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For InterGlobe Aviation Limited

Place: Gurgaon

Sanjay Gupta Company Secretary and Chief Compliance Officer

Date : October 17, 2018

Insurance Company for Group Insurance (Credit Life) of Education and Housing Loan borrowers", for specifications & other relevant details, RFP may be downloaded from Bank's website www.psbindia.com. Any further changes related to the said Tender shall be

Company Secretary

For Bharat Nidhi Limited

Oriental Bank of Commerce

Registered Office: E-Block, Harsha Bhawan, Connaught Place, New Delhi-110 001 Corporate Office: Plot No. 5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram-122001 NOTICE

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Bank will be held on Thursday, 25th October 2018 at Corporate Office, Gurugram, to inter-alia, consider and approve the Reviewed Financial Results of the Bank for the quarter / half year ended 30th September 2018. Place: Gurugram Swarup Saha

Dated: October 18, 2018 General Manager (MBD) The Notice of board meeting is also available on Bank's website a www.obcindia.co.in and on the website of the Stock Exchanges i.e www.nseindia.com and www.bseindia.com.



posted on Bank's website only. Asst, General Manager (M&I)

PUBLIC NOTICE **LINK**Intime

Regd. Office: C-101, 247 Park L B S Marg, Vikhroli West,

Mumbai 400 083 Website: www.linkintime.co.in ATTENTION INVESTORS Kindly take note of the Change of

Address of our New Delhi Branch Effective 19th October, 2018 to : Link Intime India Pvt Ltd Noble Heights, 1st floor, Plot No NH-2, C-1 Block, LSC

Near Savitri Market, Janakpuri New Delhi - 110058 Tel: +91 11 41410592-94 Fax: +91 11 41410591 Email: delhi@linkintime.co.in

EE (Proj) W-IX

Prerna Halwasiya

DELHI JAL BOARD: GOVT OF N.C.T DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (PROJECT) W-IX
ASHOK VIHAR, OVERHEAD TANK DELHI- 110052
Tel: 27303265 (M): 9650290803 Email id: projectwater9@gmail.com
Press NIT NO:- 01 (2018-19)

SI. No.	Name of work	Amount put to tender	Earnest Money (Rs.)	Tender Fees (Rs.) (non- refundable)	Date of Release of Tender in e-procurement solution	Last date/ time of submission of tender through e- procurement solution	Tender ID
1.	Replacement of 1000 mm dia PSC transmission water line by 1000 mm dia M/S water line with internal cement mortar lining from Najafgarh UGR to Tuda Mandi, Najafgarh		3,35,000/-	1500/-	17.10.18	12.11.2018 upto 03:00 PM	2018_DJB_ 160533_1.

Note: Any further amendment/corrigendum made in this NIT will be uploaded and can only be seen on website http://govtprocurement.delhi.gov.in ISSUED BY PRO (WATER) (Naresh Kumar Dargan)



Advt. No. J.S.V. 459/2018-19

VEDANTA LIMITED CIN: L13209MH1965PLC291394

Regd. Office: 1" Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093

Phone No. +91-22-66434500, Fax: +91-22-66434530, Email id: comp.sect@vedanta.co.in, Website: www.vedantalimited.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, October 31, 2018 inter alia to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Second Quarter and Half Year ended September 30, 2018.

The intimation submitted to the Stock Exchange(s) with reference to the aforesaid is available on their website www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.vedantalimited.com For Vedanta Limited

Place: Gurugram Date: October 19, 2018

Company Secretary & Compliance Officer



Paul Merchants Ltd. (An ISO 9001:2015 Certified Co.)(CIN: L74900DL1984PLC018679) CORP. OFF.: PML House, SCO 829-830, Sector 22A, Chandigarh 160022 Ph.0172-5041786, Fax: 0172-5041709 E-mail: info@paulmerchants.net | Website: www.paulmerchants.net

REGD. OFF.: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi-110015. Ph: 011-48702000 Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act

2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or reenactment(s) thereof for the time being in force), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and such other applicable laws and regulations, that the approval of Shareholders/ Members of Paul Merchants Limited (hereinafter the "Company") is being sought for the following Special business by way of Postal Ballot which includes voting by electronic means (Remote e-voting):

To approve payment of One Time Special Incentive to the Chairman cum Managing Director of the Company To approve remuneration of the Chairman cum Managing Director of the Company for the Financial Year 2018-19

To approve remuneration of the Executive Director of the Company for his remaining tenure i.e. upto 31-03-2020.

This Postal Ballot Notice has been sent to all the members, whose names appear in the Register of Members/Records of Depositories as on the close of working hours on Friday, 12-10-2018 i.e. "the cut-off date". Shareholders whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 12-10-2018 (Closing hours) only shall be entitled and considered for availing the Remote E-voting facility and for voting by Postal Ballot. A person who is not a shareholder as on the cut off date should treat this Postal Ballot Notice for informational purposes only

The Company, on Wednesday, October 17, 2018, has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form (including instructions on voting through Postal Ballot process and through Remote E-voting) and a self-addressed business reply envelope (for which postage charges will be paid by the Company) to the Members/ Shareh The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Kanwaljit Singh Thanewal, Practicing Company Secretary (Membership

No. FCS No 5901 and CP No 5870), SCO 64-65, Sector 17 A, Chandigarh as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot including Remote E-voting process in a fair and transparent manner and Mr. Kanwaljit Singh Thanewal has consented for the said appointment to act as Scrutinizer. The date and time of commencement of voting through Postal Ballot and Remote E-voting is Thursday, October 18, 2018 at 9.00 AM

(IST). Remote E-voting shall be blocked by CDSL after the said date and time and the Postal Ballot form received after that date and time will be considered invalid. The members/ shareholders who have not received the Postal Ballot Forms may apply to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Alankit Assignments Limited, 1E/13, Jhandewalan Extn., New Delhi- 110055 (INDIA) Ph No.: 011-42541959, E-

(IST) and the date and time of end of voting through Postal Ballot and Remote E-voting is Friday, November 16th, 2018 at 5.00 PM

mail: ramap@alankit.com and obtain a duplicate thereof or can download the Postal Ballot Form from the Company's website (www.paulmerchants.net). The Postal Ballot Form duly completed and signed by the member(s)/ shareholder(s) should reach the Scrutinizer not later than 5.00 PM (IST) on Friday, November 16th, 2018. All postal ballot forms received beyond 5.00 PM (IST) on Friday, November 16th, 2018,

shall not be valid and voting by Postal Ballot and evoting will not be allowed beyond the said date and time. The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form (including instructions to the Postal Ballot Form) are available on the website of the Company at www.paulmerchants.net and the website of CDSL at www.cdslindia.com/ www.evotingindia.com and have also been uploaded on www.bseindia.com.

The scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Board of directors or any other person authorized by him in writing after completion of the scrutiny of the postal ballots (including Remote E-voting) and the result of the voting by Postal ballot (including Remote E-voting) will be announced by the Chairman or any other duly authorized person of the Company on Saturday, November 17th, 2018, at 5.00 PM (IST) at Corporate Office of the Company at SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh - 160022 and communicated on the same day to the BSE Limited, Depository, Registrar and Share Transfer Agents and shall also be displayed on the Company's website www.paulmerchants.net and on the website of CDSL i.e. www.cdslindia.com/ www.evotingindia.com and Company's Notice Boards in Registered Office at New Delhi and Corporate Office at Chandigarh.

Contact details of the person responsible to address the queries/ grievances connected with the voting by postal ballot process including voting by electronic means, if any: Mr. Hardam Singh, Company Secretary, Paul Merchants Limited – PML House, SCO 829-830, Sector 22A, Chandigarh – 160022.

Tel 0172-5041760, Email - investor.redressal@paulmerchants.net Mr. Ram Avtar Pandey, RTA Executive, Registrar and Share Transfer Agent, Alankit Assignments Limited, 1E/13, Jhandewalan

For any queries or issues regarding e-voting, shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsl.com.

By Order of the Board of Directors For PAUL MERCHANTS LIMITED

Extn., New Delhi- 110055 (INDIA) Ph No.: 011-42541234, Email - ramap@alankit.com

Dated: 18-10-2018 Place: Chandigarh

HARDAM SINGH Company Secretary, FCS 5046

SD/-

DALMIA REFRACTORIES LIMITED Registered. Office: Dalmiapuram,

P.O. Kallakudi-621651, Dist. Tiruchirapalli. Tamil Nadu. CIN: L24297TN1973PLC006372 Tel:+91-11-23457100; Fax: +91-11-23324136 E-mail: sncoil@dalmiarf.com

Website: www.dalmiarefractories.com NOTICE Notice is hereby given that pursuant t

Regulation 29 read with Regulation 47 of the

SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, a meeting of the Board of the Directors of the Company vill be held on Wednesday, 31st October, 2018 for considering the Standalone Inaudited Financial Results of the Company or the quarter and half year ended 30° ieptember, 2018.

Company's website: www.dalmiarefractories.com and also on the ebsite of stock exchange viz. Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.: www.msei.in For Dalmia Refractories Limited

Place: New Delhi

The above information is also available or

(AKANSHA JAIN) Company Secretary

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited Orchid Business Park, 2nd Floor, Sector-48, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana (India Tel: 0124-4535500 Email: procurement@canarahsbclife.ir

September 30, 2018.

Dated: October 18, 2018

Open Tenders are invited against the following RFPs dated 16-October-2018:

ntertainment Channels (Non Hindi GEC) Above tenders have been uploaded on https://www.canarahsbolife.com, website of Canara HSBC Oriental Bank of commerce Life Insurance Company Ltd. All prospective bidders are advised to visit the aforesaid website for downloa

भा.वि.प्रा. द्वारा "Airside Capacity Enhancement of NSCBI Airport, Kolkata.

SH:- Extension of F-Taxi Track from proposed Bay No. C-13 to 19R & from



सीपीपी पोर्टल / भा.वि.प्रा. वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ।

19R to 19L, Construction of 03 nos. RET's, 04 nos. Apron, Shoulders and Box Culvert at different locations of NSCBI Airport, Kolkata (Civil & Electrical works)" के कार्य हेत् Estimated cost: ₹ 311.298 Cr. (Excluding GST) से 30 (Thirty) Months [including 08 month(s) considered for rain of 02 monsoon season(s)] की अवधि में पूर्ण करने के लिए योग्य ठेकेंदारों से आइटम रेट. ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। Last date and time of submission of bid documents: 30.11.2018 upto 1800 hrs. विस्तृत जानकारी हेत् क्पया सीपीपी पोर्टलः https://etenders.gov.in/eprocure/app या भा.वि.प्रा. वेबसाइट



NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED CIN: L72200DL1992PLC049074 Regd. Office: A-6, Satsang Vihar Marg, Qutab Institutional Area, New Delhi – 110067 Tel.: +91-11-40770100, 26963571, 26964733, Fax: (+91) -11-26856936 Website: https://newgensoft.com, Email: investors@newgensoft.com

NOTICE

www.aai.aero पर लॉग ऑन करें। इस संबंध में आगे कोई स्पष्टीकरण / शुद्धिपत्र केवल

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, October 29, 2018, inter alia, to consider and approve the Unaudited Standalone and Unaudited Consolidated financial results of the Company for the 2" Quarter and Half year ended September 30, 2018.

The said information is also available on the website of the Company at https://newgensoft.com and website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Newgen Software Technologies Limited

Date: 18.10.2018 Place: New Delhi

Aman Mourya Company Secretary & Compliance Officer

lemon tree

LEMON TREE HOTELS LIMITED (CIN: L74899DL1992PLC049022) Regd. Off.: Asset No. 6, Aerocity Hospitality

Tel. +91-11-4605 0101; Fax +91-11-4605 0110 Email: sectdeptt@lemontreehotels.com Website: www.lemontreehotels.com

NOTICE

District, New Delhi-110037

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, November 13, 2018, inter alia, to consider and approve, the Unaudited Financial Results of the Company, both on Standalone and Consolidated basis, for the quarter and half year ended September 30, 2018.

This information is also available on the website of the Company at www.lemontreehotels.com and on the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Lemon Tree Hotels Limited

Date: October 18, 2018

Nikhil Sethi Group Company Secretary &

Place: New Delhi GM Legal & Compliance Officer KHOLONGCHHU HYDRO ENERGY LIMITED



PRESS NOTICE Sealed item rate bids are hereby invited for and on behalf of Kholongchhu Hydro Energy Limited (KHEL) from experienced, reputed, competent and financially sound Indian and Bhutanese Contractors/Companies/Firms (having hydro experience or non-hydro civil construction experience) registered in India/ Bhutan for the works as mentioned below for the Kholongchhu Hydroelectric Project (600 MW) located in Trashiyangtse, Bhutan: Bid Security Time for (Nu/Rs Million) Completion* (Months) Package Construction of river diversion works, Dam, Intake,

Desilting arrangement and HRT from RD 0.00 m to RD 2,303.00 m including Construction Adit I Construction of Head Race Tunnel from RD 2, 20.00 303.00 m to RD 14,091.07 m including Construction Adits II, III, IV & V & Chaplangchhu diversion works Construction of Head Race Tunnel from RD 14,091,07 20.00 m to RD 15,762.80 m including Construction Adit VI Surge Shaft, Butterfly Valve Chamber, Pressure Shafts, Power House Complex & Tail Race Tunnel

Time for Completion is calculated from the date of Commencement. This period also includes the mobilization time.

Complete details of Notice Inviting Tender can be downloaded from the following websites: www.khepbhutan.com, www.drukgreen.bt, www.sjvn.nic.in & www.eprocure.gov.in. Amendment(s), if any, shall be issued by KHEL in these websites only.

Chief Engineer (Contracts)
Kholongchhu Hydro Energy Limited, Post Box No. 23, Trashiyangtse, Bhutan
Telephone No.: +975 4 781158 | Mobile No.: +975 17823744 Email: cecontracts.khep@gmail.com



www.greenlamindustries.com

GREENLAM INDUSTRIES LIMITED Registered Office: Makum Road, Tinsukia, Assam - 786125, India Corporate Office: 1501-05, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001, India Phone No.:+91-11-4279 1399, Fax No.:+91-11-4279 1330, CIN: L21016AS2013PLC011624

Email: investor.relations@greenlam.com; Website: www.greenlamindustries.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29(1)(a) and other applicable Regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Greenlam Industries Limited will be held on Friday, October 26, 2018, inter alia, to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and

half year ended September 30, 2018. For further details, please visit the website of the Company 'www.greenlamindustries.com', website of the National Stock Exchange of India Limited 'www.nseindia.com' and website of BSE Limited 'www.bseindia.com'.

For Greenlam Industries Limited

Prakash Kumar Biswal Company Secretary & Vice President-Legal

Mikasa



decowood

Date: October 18, 2018

Place: New Delhi

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

झाबुआ (मप्र), 18 अक्तूबर (भाषा)।

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में रेलवे क्रासिंग पर हुए एक हादसे में त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस के यात्री उस समय बाल बाल बच गए, जब गुरुवार की सुबह तेज गति से जा रहा एक ट्रक रेलवे क्रासिंग का फाटक तोड़ते हुए वहां से गुजर रही राजधानी एक्सप्रेस से जा टकराया। हादसे में टुक के परखचे उड गए, ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और राजधानी एक्सप्रेस की दो बोगियां पटरी से उतर गईं।

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि हादसा दाहोद-रतलाम रेल खंड पर मेघनगर और थांदला रोड स्टेशनों के बीच हुआ। यह स्थान इंदौर से करीब 175 किलोमीटर दूर है। झाबुआ जिला पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन ने बताया कि सुबह करीब पौने सात बजे थांदला रोड और मेघनगर रेलवे स्टेशन के बीच सजेली के पास तेज रफ्तार से जा रहा ट्रक रेलवे क्रासिंग का बंद गेट तोड़ते हुए पटरियों पर दौड़ती राजधानी एक्सप्रेस से जा टकराया। हादसे में राजधानी एक्सप्रेस की दो बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में वड़ोदरा निवासी टुक चालक सलीम (35) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। रतलाम रेल मंडल के प्रबंधक (डीआरएम)

गौतम नवलखा ने की

प्राथमिकी खारिज

करने की अपील

भीमा-कोरेगांव मामले और

माओवादियों के साथ कथित संबंधों

के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए

सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा

ने बंबई हाई कोर्ट का रूख कर

उनके खिलाफ दर्ज मामले को

खारिज करने का आग्रह किया है।

इस महीने की शुरुआत में हाई

कोर्ट में दायर अपनी याचिका में

नवलखा ने पुणे पुलिस की ओर से

उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को

रद्द करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने दावा किया है कि उनके

खिलाफ कोई सब्रत नहीं है और

उन्हें फंसाया जा रहा है। न्यायमूर्ति

रणजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती

दांगरे की खंडपीठ शुक्रवार को

उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी।

नवलखा, जाने-माने तेलुग् कवि

वरवरा राव, कार्यकर्ताओं अरुण

फरेरा और वर्नोन गोंजालविस व

सुधा भारद्वाज को पुणे पुलिस ने इस

साल अगस्त में गिरफ्तार किया था।

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता

है कि मैं श्रीमती रीता सुलेख पत्नी

श्री विजय सुलेख, निवासी व स्वामी फ्लैट संख्या 3024 आईएफसीआई

कर्मचारी सीजीएचएस लिमिटेड 23/4,

द्वारिका, नई दिल्ली-110077, का उक्त सोसायटी द्वारा मेरे नाम में जारी शेयर प्रमाण पत्र संख्या 84 गुम हो गया है।

यदि किसी को प्राप्त हो, कृपया इसे

वापिस करें। इसका दुरुपयोग करने पर,

PUBLIC NOTICE

LINKIntime

Regd. Office: C-101, 247 Park

L B S Marg, Vikhroli West,

Mumbai 400 083

Website: www.linkintime.co.in

ATTENTION INVESTORS

Kindly take note of the Change of

Address of our New Delhi Branch

Effective 19th October, 2018 to :

Link Intime India Pvt Ltd

Noble Heights, 1st floor, Plot No NH-2.

C-1 Block, LSC

Near Savitri Market, Janakpuri

New Delhi - 110058

Tel: +91 11 41410592-94

Fax: +91 11 41410591

Email: delhi@linkintime.co.in

इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

मुंबई, 18 अक्तूबर (भाषा)।

ट्रक चालक की मौत, दो बोगियां बेपटरी

हादसा दाहोद-रतलाम रेल खंड पर मेघनगर और थांदला रोड स्टेशनों के बीच हुआ। यह इदौर से 175 किलोमीटर दूर है। कोई रेलयात्री हताहत नहीं हुआ है। राजधानी एक्स हजरत निजामुद्दीन जा रही थी।

आरएन शंकर ने बताया कि हादसे में कोई रेलयात्री हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन जा रही थी। हादसे में ट्रेन के बी-7 और बी-8 नंबर के दो कोच पटरी से उतर गए। इन दो बोगियों सहित ट्रेन की कुल नौ बोगियों को घटनास्थल पर ही रोक लिया गया है। इन डिब्बों के सभी यात्रियों को अन्य डिब्बों में स्थान देकर ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया है। उन्होंने बताया. हादसे से प्रभावित लाइन पर रेल यातायात बहाल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। जैन ने बताया कि ट्रक गुजरात में पंजीकृत है। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक के परखचे उड़ गये। झाबुआ के कलेक्टर आशीष सक्सेना, रेलवे के अधिकारियों सहित जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहंच गए हैं और राहत कार्यों की देखरेख कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी

रायपुर, 18 अक्तूबर (भाषा)

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की पहली सुची जारी कर दी है। कांग्रेस ने नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 12 विधानसभा सीट में उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांकेर से मौजूदा विधायक शंकर ध्रुवा का टिकट काट दिया गया है। सात अन्य विधायकों को टिकट दिया गया है। बस्तर क्षेत्र के 12 सीटों में से आठ पर कांग्रेस के विधायक है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख शैलेष नितिन त्रिवेदी ने गुरुवार को यहां बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरिक्षत कोंटा सीट से मौजूदा विधायक कवासी लखमा, दंतेवाडा से देवती कर्मा, कोंडागांव से मोहन मरकाम, केशकाल ने संतराम नेताम, भानुप्रतापपुर से मनोज सिंह मंडावी, चित्रकोट से दीपक कुमार बैज और बस्तर सीट से लखेश्वर बघेल पर फिर भरोसा जताया है। दंतेवाड़ा से कांग्रेस की उम्मीदवार और मौजूदा विधायक देवती कर्मा विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा की पत्नी हैं।

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी सह बिक्री हेत् सार्वजनिक सुचना

DCB BANK

एतद्द्वारा सर्व साघारण को सूचना दी जाती है कि डीसीबी बैंक लिमिटेड (इसमें आगे "बैंक" कहा गया है), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602. पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोजर परेल, मुंबई 400013 में रिथत है, द्वारा बैंक में बंधक रखे स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलागी सह बिक्री 'जैसा है जहां है आधार', 'जैसा है जो भी है आधार', 'जो भी वहां है आधार' तथा 'कोई वापसी नहीं आधार" पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के निम्नवर्णित कर्जदारों के ऋण खाते के संबंध में बैंक को प्रदान किए गए थे और बंधक रखे गए थे। निम्नवर्णित स्वर्ण आभूषण बैंक अघोवर्णित ऋण खातों के बकाया राशि की वसूली के लिए बेचे जाएंगे :

큙. स.	ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शुद्ध भार (ग्राम में)	नीलामी की तिथि सम्पर्क व्यक्ति एवं स्थान
1	10841200000815	फरहत अब्बास	291	
2	10841200003728	कुलविन्दर सिंह पाल	220	25 एवं 26
3	10841200007832	शहजादा तौसीफ	129	अक्टूबर 2018
4	10853300000143	शफीक अहमद	201	1
5	10841200005654	मुमताज अली	77	श्री कासिफ खान
6	10841200006507	अखिलेश सिंह	41	लोहानी
7	10841200006323	मुमताज अली	34	टेलिफोन नं.
8	10841200007474	कुलविन्दर सिंह पाल	25	7388448800/
9	10841200003773	शैलेन्द्र कुमार	24	9044005893/5907
10	10841200005203	कुलविन्दर सिंह पाल	21	डीसीबी बैंक लि.,
11	10841200007702	अखिलेश सिंह	16	शालीमार टावर
12	10841200005067	अजीत सिंह	16	भूतल, टीसी-57/वी
13	10841200006545	मनोज कुमार	- 11	विभूति, गोमती नग
14	10841200006361	अरूण कुमार शर्मा	8	लखनऊ-226010
45	40044000000000		-	713-13-220010

| 15 | 10841200006095 | राहल देव मिश्रा जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषण बिक्री करने का निर्णय किया है, आज प्रकाशित नीलामी सह बिक्री की इस सूचना के माध्यम से संबंधित कर्जदारों / बंधकदाताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सचना दी जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक बिक्री उपरिवर्णित तिथियों एवं स्थानों पर की जाएगी। इच्छक बोलीदाता अतिरिक्त जानकारी के लिए बैंक के प्राधिकत अधिकारी से नीलामी की तिथि को या उससे पहले सम्पर्क कर सकते हैं।

संबंधित कर्जदारों / बंधकदाताओं को उपरोक्त बकाया राशियों का पूर्ण भुगतान तत्संबंधी ब्याज और प्रभारों सहित, नीलामी की तिथि से एक दिन पहले तक करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर ये स्वर्ण आभूषण उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार बेचे जाएंगे।

यहां ऊपर विनिर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संबंध में विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के

सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार प्रकाशित किया गया है, जो तथापि उक्त विवरण में किसी त्रृटि, मिथ्याकथन, विलोपन, विसंगति अथवा कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

तिथि : 19-10-2018 स्थान : लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड



शालीमार पेंद्रस लिमिटेड

सीआर्डएन : L24222HR1902PLC065611 पंजीकृत कार्यालय : स्टेनलेस सेंटर, चतुर्थ तल, प्लॉट - नंबर १ सेक्टर-32, गुरुवाम, (हरियाणा)-122001 वेबसाइट : www.shalimarpaints.com ई-मेल : askus@shalimarpaints.com

एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, २०१५ के विनियम २९ के साथ पठित विनिवम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बृहस्पतिवार, 25 अक्टूबर, 2018 को पूर्वा. 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय स्टेनलेस सेंटर, चतुर्ध तल, प्लॉट नंबर 50, सेक्टर-32, गुरूग्राम, हरियाणा-122001 में आयोजित की जाएगी, जिसमें 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही हेत् कम्पनी के अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं

अभिलेखबद्ध किए जाएंगे। वास्ते शालीमार पेंट्स लिमिटेड तिथि : 18 अक्टूबर, 2018

स्थान : गुरुग्राम ओरासिल स्मिथ्स इंडिया

CIN: L74899DL1994PLC059341,

पंजी. कार्यालयः फ्लैट न0. 620, हेमकुंत चेम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 इंमेलः info@orosil.com, वेबसाइटः www.orosil.com, फोन न0. 120-4125476

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ, 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाडी और छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, स्वीकृत और रिकॉर्ड पर लेने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 27 अक्टूबर, 2018 को दोपहर 04:00 बजे कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय ए-89, सेक्टर 2, नोएडा-201301

इससे संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.orosil.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

में आयोजित किया जाएगा।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते औरासिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड

(बी.कं. नरुला) स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक तिथाः 18.10.2018 DIN: 00003629 स्वर्ण आभूषणों की नीलामी सह बिक्री हेतू

DCB BANK

सार्वजनिक सुचना एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि डीसीबी बैंक लिमिटेड (इसमें आगे "बैंक" कहा गया है), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 में स्थित है, द्वारा बैंक में बंधक रखे स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी सह बिक्री 'जैसा है जहां है आधार', 'जैसा है जो भी है आधार', 'जो भी वहां है आधार' तथा 'कोई वापसी नहीं आधार' पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के निम्नवर्णित कर्जदारों के ऋण खाते के संबंध में बैंक को प्रदान किए गए थे और बंधक रखे गए थे। निम्नवर्णित स्वर्ण आभूषण बैंक अधोवर्णित ऋण खातों के बकाया राशि की

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शुद्ध भार (ग्राम में)
1	19541200002967	हेमन्त सिंह चौहान	142
2	19541200000125	सतगुरू सिंह पनवार	85
3	19541200001410	रवि साहू	38
4	19541200004824	मोहम्मद असलम खान	36
5	19541200001878	हिम्मत कुमार	39
6	19541200004466	मोहम्मद असलम खान	29
7	19541200000550	अमित सोनी	28
8	19541200001533	रवि साह्	29
9	19541200004077	पंकज कुमार जैन	18
10	19541200000374	सतगुरू सिंह पनवार	18
11	19541200001168	मोहम्मद असलम खान	19
12	19541200003124	मुनुद्दीन	11
13	19541200002646	हिम्मत कुमार	12
14	19541200003254	सुरेश	9
15	DGL750001276	योगेन्द्र कुमार जैन	478.7

नीलामी की तिथि : 25 एवं 26 अक्टूबर 2018

सम्पर्क व्यक्ति : श्री कैलाश शर्मा-टेलिफोन नं. 08949492688 / 9214089244 नीलामी का स्थान : डीसीबी बैंक लि., 711/4 का हिस्सा, के सी काम्पलैक्स, हास्पिटल

रोड, नियर सुन्दर विलास, अजमेर -305001 जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषण बिक्री करने का निर्णय किया है, आज

प्रकाशित नीलामी सह बिक्री की इस सूचना के माध्यम से संबंधित कर्जदारों / बंधकदाताओं को विशेष रूप से तथा सर्वेसाधारण को सूचना दी जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आमूषणों की सार्वजनिक बिक्री उपरिवर्णित तिथियों एवं स्थानों पर की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता अतिरिक्त जानकारी के लिए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी की तिथि को या उससे पहले सम्पर्क कर सकते हैं। संबंधित कर्जदारों / बंधकदाताओं को उपरोक्त बकाया राशियों का पूर्ण भुगतान तत्संबंधी ब्याज और प्रभारों सहित, नीलामी की तिथि से एक दिन पहले तक करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर ये स्वर्ण आभूषण उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार बेचे जाएंगे। यहां ऊपर विनिर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संबंध मे विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार प्रकाशित किया गया है, जो तथापि उक्त विवरण में किसी त्रुटि,

मिथ्याकथन, विलोपन, विसंगति अथवा कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तिथि : 19-10-2018 प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड स्थान : अजमेर



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम) समाधान वसूली व विधि विभाग, फरीदाबाद नीलम चौक एनआईटी, फरीदाबाद—121002 (हरियाणा) फोनः 0129-2415525, ई—मेलः rri_7622@obc.co.in

परिशिष्ट IV, नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था. जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भगतान करने को कहा

उधारकर्ता उक्त राशि का भृगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ

पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न

करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन—देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	खाते का नाम (कर्जदार)	माँग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख बकाया राशि (रू. में)	अचल सम्पत्तियों का विवरण
1	श्री हीरा सिंह यादव	24-02-2017 17-10-2018 ₹ 24,08,908.00 दिनांक 30.09.2018 तक और होने वाला ब्याज	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि : साम्यिक बंधक सम्पत्ति मकान नं. 122, अशोका एनक्लेव एक्सटेंशन—।।।, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती सीमा यादव पत्नी श्री हीरा सिंह यादव के नाम पर सब—रजिस्ट्रार फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहदी : उत्तर में — रोड, पूरब में — रोड, दक्षिण में — मकान नं. 122ए, पश्चिम में — मकान नं. 123
2	श्री हीरा सिंह यादव	24-02-2017 17-10-2018 ₹ 56,93,450.00 दिनांक 30.09.2018 तक और होने वाला ब्याज	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोिक : साम्यिक बंधक सम्पत्ति मकान नं. 122, अशोका एनक्लेव एक्सटेंशन—।।।, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती सीमा यादव पत्नी श्री हीरा सिंह यादव के नाम पर सब—रजिस्ट्रार फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में — रोड, पूरब में — रोड, दक्षिण में — मकान नं. 122ए, पश्चिम में — मकान नं. 123
3	मैसर्स न्यू ऐज़ वॉटर सप्लाई (प्रोपराईटर श्री हीरा सिंह यादव)	24-02-2017 17-10-2018 ₹ 99,03,755.35 दिनांक 30.09.2018 तक और होने वाला ब्याज	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि : साम्यिक बंधक सम्पत्ति मकान नं. 122, अशोका एनक्लेव एक्सटेंशन—।।।, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती सीमा यादव पत्नी श्री हीरा सिंह यादव के नाम पर सब—रजिस्ट्रार फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में — रोड, पूरब में — रोड, दक्षिण में — मकान नं. 122ए, पश्चिम में — मकान नं. 123

वैंक ऑफ इंडिया Bank of India

दिनांक : 17.10.2018,

स्थान : फरीदाबाद (हरियाणा)

तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया **के अधीन होगा।**

हौज़ खास शाखा, ए-21, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016 फोन नं. 28866059, 28866060, 26563713 ईमेल : hauzkhas.newdelhi@bankofindia.co.in

(सांकेतिक) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 8(1) के अंतर्गत कब्जा सूचना जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों / गारन्टरों को एक मांग सूचना दिनांक 10.08.2018 को जारी किया था कर्जदारों / गारन्टरों राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदृद्वारा कर्जदारों / गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित

किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 को लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों / गारन्टरों तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है

11-41	रानारा के राज्य कार्य मा राज्य का का का का का का का वा गा हो गा ।		
क्र. सं.	कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि साथ में ब्याज
1	 श्री जसबीर सिंह पुत्र स्वं. श्री संत शाह सिंह, द्वितीय तल, बी—38, शिवालिक, नई दिल्ली—110017, 2. सुश्री सरबजीत कौर पुत्री स्वं. श्री संत शाह सिंह द्वितीय तल, बी—38, शिवालिक, नई दिल्ली—110017 		दिनांक 31.03.2018 से भविष्य का ब्याज, खर्ची और
2	कौर पत्नी श्री जसबीर शाह सिंह द्वितीय तल, बी—38, शिवालिक, नई दिल्ली—110017	श्री जसबीर शाह सिंह पुत्र स्वं. संत शाह सिंह और सुश्री सरबजीत कौर पुत्री स्वं. श्री संत शाह सिंह के नाम पर है, साथ में आनुपातिक अविभाजित अविभाज्य और निष्णम स्वामित्व के साथ ही	₹ 19,50,239.28 दिनांक 31.03.2018 से भविष्य का ब्याज, खर्चों और अन्य प्रमार इत्यादि सहित
3	 श्री परमजीत शाह सिंह पुत्र स्वं. श्री संत शाह सिंह (प्रधान देनदार), 	नीचे फ्री होल्ड भूमि जिसका नं.	₹ 14,38,175.23

शिवालिक, नई दिल्ली —110017 (गारंटर्स — बंधककर्ता) 1. मैसर्स देवांश एंटरप्राइजेज, 8938 / 14, सिद्वीपुरा मार्केंट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 2. मैसर्स देवांश एंटरप्राइजेज के प्रोप., श्रीमती कविता गौतम पत्नी श्री भूतल, विस्तारित पार्किंग लाल नंद किशोर गौतम, 80 / 4, देवली गांव, नाई बस्ट, नई दिल्ली—110062 3. श्री नंद किशोर गौतम पुत्र श्री बाबू लाल गौतम, 80/4, देवली गांव, नाई बस्ट, नई दिल्ली -110062

बी-38, शिवालिक, नई दिल्ली -110017 (गारंटर्स - बंधककर्ता)

द्वितीय तल, बी-38, शिवालिक, नई दिल्ली -110017

दिनांक 31.03.2018 से बी-38, शिवालिक, नई 2. श्री जसबीर शाह सिंह पुत्र स्वं. श्री संत शाह सिंह, द्वितीय तल, भविष्य का ब्याज, दिल्ली-110017, क्षेत्रफल 192 खर्चों और अन्य प्रभार वर्ग गज इत्यादि सहित 3. सुश्री सरबजीत कौर पुत्री स्वं. श्री संत शाह सिंह, द्वितीय तल, बी-38, सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं ₹ 18,31,940.69 जिसका खसरा नं. 682/1, सम्पूर्ण दिनांक 31.07.2018 से भविष्य का ब्याज, खर्चों और अन्य प्रभार डोरा की आबादी, गांव देवली गांव, इत्यादि सहित (जिसे अब गली नं. 5 के रूप में जाना जाता है), नई दिल्ली 110062 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती कविता गौतम पत्नी श्री नंद किशोर गौतम, प्लॉट क्षेत्रफल 50 166 वर्ग मी. (समानुपातिक 12.415

दिनांक : 15.10.2018 प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक वंक ऑफ इंडिया

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी सह बिक्री हेत् सार्वजनिक सचना

स्थान : नई दिल्ली

48 09241200001434

स्थान : दिल्ली

रंजना रंजना

नीलामी की तिथि : 25 एवं 26 अक्टूबर 2018

DCB BANK एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि ढीसीबी बैंक लिमिटेड (इसमें आगे "बैंक" कहा गया है), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई -400013 में रिथत है, द्वारा बैंक में बंधक रखे स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी सह बिक्री "जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जो भी है आधार", 'जो भी वहां है आधार' तथा 'कोई वापसी नहीं आधार' पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक

के निम्नवर्णित कर्जदारों के ऋण खाते के संबंध में बैंक को प्रदान किए गए थे और बंधक रखे गए थे। निम्नवर्णित स्वर्ण आभूषण बैंक अधोवर्णित ऋण खातों के बकाया राशि की वसूली के लिए बेचे जाएंगे :

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शुद्ध भार (ग्राम में)	क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शुद्ध भार (ग्राम में)
1	19041200001922	विकास बंसल	969	49	15741200001939	सुभाष चन्द	27
2	18741200002295	हमेश अहूजा	374	50	18641200000903	दीपक	29
3	18541200000781	मोहीत थामा	339	51	11941200005159	पवन कुमार	26
4	18541200000471	शैली दुआ	245	52	11941200002387	योगेश सिंह	27
5	19041200001168	पूजा जैन	226	53	18741200001489	मदन पाल	27
6	18541200000462	अभय दुआ	230	54	09241200001618	धर्मेन्द्र यादव	25
7	18541200000790	मोहीत थामा	227	55	18341200001939	सचिन भारद्वाज	26
8	19041200001182	पूजा जैन	196	56	18341200001847	राहुल त्यागी	63
9	19041200000347	अतुल जैन	192	57	18341200001618	सूरज मिश्रा	37
10	19041200001175	अतुल जैन	183	58	09241200000541	रहीम खान	22
11	18341200000921	महमूद	182	59	11941200003742	प्रवीन राज मेहरा	21
12	18941200000471	संदीप घावरी	171	60	11941200005487	प्रवीन राज मेहरा	20
13	11941200003759	धर्मेन्द्र सिंह	149	61	15741200002011	हीरा लाल	20
14	18641200000028	विकास	145	62	18341200000550	जगमोहन ठाकुर	24
15	18341200001915	ज्योति त्यागी	128	63	11941200002790	प्रवीन राज मेहरा	20
16	07041200000170	शरीफ अहमद	114	64	11941200006279	अमित भाटी	16
17	19141200001489	प्रमोद कुमार	102	65	19141200000170	रविन्द्र कुमार	18
18	11941200005661	गौरव कुमार नागर	90	66	11941200005623	अमित भाटी	15
19	18341200000198	गगन प्रताप सिंह	83	67	11941200006644	गौरव कुमार नागर	14
20	18541200000860	सुमेश कुमार समईर	86	68	18441200001021	मनोज कुमार	15
21	07041200002974	दलिप दुआ	78	69	15741200002059	हीरा लाल	15
22	19041200001366	मोहीत मोहीत	76	70	11941200002752	सत्याकम	14
23	18541200000657	राजेन्द्र कुमार	77	71	11941200005913	यशराज भाटी	12
24	11941200002950	मंजीत मंजीत	77	72	11941200004541	प्रवीन राज मेहरा	13
25	18341200002356	खुशवन्त कौर हंसपाल	64	73	16541200000091	कमल नारंग	12
26	11941200006705	विनित मावी	61	74	18541200000684	पवन कुमार	9
27	19041200000268	पवन कुमार	63	75	17941200001106	पवन कुमार	7
28	18341200002370	कनिष्ठ शर्मा	57	76	19141200001953	रविन्द्र कुमार	7
29	11941200005166	सतीश कुमार झा	58	77	18641200001113	सागर कुमार पलई	12
30	11941200005210	राहुल रावल	56	78	11941200005081	यशराज भाटी	6
31	07041200002547	अनु देवी	61	79	DGL755000543	अमरदीप कौर	63.2
32	18341200000879	नरेश शर्मा	60	80	DGL882000801	डीपी सिन्हा	51.8
33	18341200002042	रूबी कुमारी	57	81	DGL740001351	लाकेश कुमार जैसवाल	51.1
34	11941200003681	प्रवीन कुमार	54	82	DGL890001290	राजेश कुमार	16.4
35	18341200000499	सचिन भारद्वाज	58	83	DGL2183001930	हेमन्त कुमार	18.8
36	11941200003889	सुनील कुमार	53	84	DGL1920001175	बुज मोहन सबरवाल	97.4
37	18541200000824	संजय	54	85	DGL739001707	यतीश राघव	21.2
38	09141200000189	रईसुदुदीन	53	86	DGL1920000664	प्रेमा देवी	16.5
39	19041200001557	मनोहर लाल जैन	43	87	DGL755001389	दीपक कुमार	18.3
40	18341200002226	मोह. जाहीद	40	88	DGL1920000622	प्रेमा देवी	20
41	18541200001199	सईद अमीन अली	39	89	DGL719003548	महेश कुमार	46.3
42	11941200005371	अमित भाटी	34	90	DGL1920001070	प्रवेज खान	218.4
43	18341200000587	नेहा शुक्ला	35	91	DGL719003891	योगेश सिंह	39.5
44	18441200001045	दिलवार सिंह	32	92	DGL737000493	अजय कुमार भट्ट	299.8
45	07041200001922	जगदीश कुमार	36	93	DGL740001535	दीपक मेहरा	11.4
	11941200006132	विक्रम भाटी	30	94	DGL2183001172	विरेन्द्र कुमार मलहोत्रा	120.8
47	19041200000102	मन्य लाल	28	95	DGL719003713	ग्रामीत कौर	27

नीलामी का स्थान : डीसीबी बैंक लि., 13, सूर्या निकेतन, आनन्द विहार गुरूद्वारा के सामने, प्रीत विहार ब्रांच, दिल्ली-110092 जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषण बिक्री करने का निर्णय किया है, आज प्रकाशित नीलामी सह बिक्री की इस सूचना के माध्यम से संबंधित कर्जदारों / बंधकदाताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक | बिक्री उपरिवर्णित तिथियों एवं स्थानों पर की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता अतिरिक्त जानकारी के लिए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलागी की| तिथि को या उससे पहले सम्पर्क कर सकते हैं।

96 DGL737001200

सम्पर्क व्यक्ति : श्री अनुज कुमार शर्मा-टेलिफोन नं. 9711058550

मनोज कुमार चौहान

डीसीबी बैंक लिमिटेड

संबंधित कर्जदारों / बंधकदाताओं को उपरोक्त बकाया राशियों का पूर्ण भुगतान तत्संबंधी ब्याज और प्रभारों सहित, नीलामी की तिथि से एक दिन | पहले तक करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है. जिसमें असफल रहने पर ये स्वर्ण आभूषण उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार बेचे जाएंगे। यहां ऊपर विनिर्दिष्ट स्वर्ण आमूषणों के संबंध मे विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार प्रकाशित किया गया | हैं, जो तथापि उक्त विवरण में किसी त्रुटि, मिथ्याकथन, विलोपन, विसंगति अथवा कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तिथि : 19-10-2018 प्राधिकृत अधिकारी

lemon tree

स्थान : नई दिल्ली

लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड

(सीआईएन: L74899DL1992PLC049022) **पंजीकृत कार्यालयः** एसेट संख्या 6, एरोसिटी होस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली-110037 दूरभाषः +91-11- 4605 0101; फैक्सः +91-11-4605 0110 ईमेलः sectdeptt@lemontreehotels.com

सूचना

वेबसाइटः www.lemontreehotels.com

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 47 के अनुपालन में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 13 नवम्बर 2018 को, अन्य विषयों के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2018 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेत् कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों एकल एवं समेकित दोनो आधार पर, विचार एवं अनुमोदन हेतु आयोजित की जायेगी।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.lemontreehotels.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है, www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड

दिनांकः 18 अक्टूबर 2018

निखिल सेठी ग्रप कम्पनी सचिव व जीएम लीगल एवं अनुपालन अधिकारी

सार्वजनिक उदघोषणा

(दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन) प्रकिया विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत)

	पी के सेल्स कम्पनी प्राईवेट ति	ामिटेड के शेयरधारकों के ध्यानार्थ
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारकों का नाम	पी के सेल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	23/05/2011
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	आरओसी–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74140DL2011PTC219681
5.	कॉपोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	
6.	दिवाला प्रस्ताव प्रकिया के समापन की तिथि	13/09/2018

(माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बैंच का आदेश 15/10/2018 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।) परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता राकेश भाटिया टेलीफोन नम्बर एवं पंजीकरण संख्या 105-107, वर्धमान प्रीमियम मॉल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034 ईमेल:liquidator.pksalescompany@gmail.com

10/10/2018

मोबाइल : 9810378000 पंजीकरण: IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-18/11608 9. दावे जमा करने की अंतिम तिथि 08/11/2018 रतदद्वारा सचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, (नई दिल्ली पीठ) ने संहिता की धारा 33 के तहत 10 अक्तूबर, 2018 को पी के सेल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के

नीलामी की तिथि

प्राधिकृत अधिकारी

डीसीबी बैंक लिमिटेड

पास ८ नवम्बर, २०१८ को उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनेंशियल केंडिटर्स केंवल इलेक्ट्रानिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते है। अन्य सभी स्टेकधारक व्यक्गितगत डाक द्वारा अपने इलेक्ट्रानिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते है। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। (माननीय एनसीएलटी के आदेश की प्रतिलिपि

15.10.2018 को वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।) एतदद्वारा पी के सेल्स कम्पनी प्राईवेट

लिमिटेड के शेयर धारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 8 में वर्णित पते पर परिसमापक के

दिनांक : 19.10.2018 राकेश भाटिया स्थान : नई दिल्ली

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी सह बिक्री हेत् सार्वजनिक सचना

वसुली के लिए बेचे जाएंगे :-

कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू

होने की तिथि

DCB BANK एतदद्वारा सर्व साघारण को सूचना दी जाती है कि डीसीबी बैंक लिमिटेड (इसमें आगे "बैंक" कह गया है), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602. पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोजर परेल, मुंबई 400013 में स्थित है, द्वारा बैंक में बंधक रखे स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी सह बिक्री "जैसा है जहां है आघार", "जैसा है जो भी है आघार", "जो भी वहां है आघार" तथा "कोई वापसी नहीं आधार' पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आमुषण बैंक के निम्नवर्णित कर्जदारों के ऋण खाते के संबंध में बैंक को प्रदान किए गए थे और

बंधक रखे गए थे। निम्नवर्णित स्वर्ण आभूषण बैंक अधोवर्णित ऋण खातों के बकाया राशि की

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शुद्ध भार (ग्राम में)	नीलामी की तिथि सम्पर्क व्यक्ति एवं स्थान
1	09641200010900	मेहर दीन	102	
2	09641200010964	विद्या वैष्णव	61]
3	09641200010502	कान सिंह शांखला	56]
4	09641200008358	अरूण व्यास	52	25 एवं 26
5	09641200010496	कान सिंह शांखला	48	अक्टूबर 2018
6	09641200008365	प्रहलाद सिंह राठौर	39	11911 2010
7	09641200003537	मनोहर लाल	31]
8	09641200008037	विनोद शर्मा	22]
9	09641200006064	मनोहर लाल	20	श्री कैलाश शर्मा
10	09641200004152	मो. रफीक	16	टेलिफोन नं.
11	09641200001175	ओम प्रकाश विश्नोई	112	08949492688/
12	09641200001649	ओम प्रकाश विश्नोई	25	9214089244
13	DGL884000821	मोहम्मद वाजीद	8.1	3214003244
14	DGL884001384	महेन्द्र विश्नोई	48.8]
15	DGL884001265	महेन्द्र विश्नोई	287	1
16	DGL884001496	सुदीप सिंह	23.3	डीसीबी बैंक लि.,
17	DGL884001489	रंजीत चौहान	10.2	नियर नई
18	DGL884001077	मंजू जी	56.6	कोहीनूर सिनेमा
19	DGL884001471	मोहम्मद वाजीद	11.2	चौपसिनी रोड
20	DGL884001550	विजय सिंघल	28.8	जोधपुर-342001
21	DGL884000815	अशोक कुमार	134.3	
22	DGL884001574	भरत राज	73.6]
23	DGL884001611	महेन्द्र विश्नोई	36.8	1

आज प्रकाशित नीलामी सह बिक्री की इस सूचना के माध्यम से संबंधित कर्जदारों / बंधकदाताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक बिक्री उपरिवर्णित तिथियों एवं रथानों पर की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता अतिरिक्त जानकारी के लिए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी की तिथि को या उससे पहले सम्पर्क

संबंधित कर्जदारों / बंधकदाताओं को उपरोक्त बकाया राशियों का पूर्ण भुगतान तत्संबंधी ब्याज और प्रभारों सहित, नीलामी की तिथि से एक दिन पहले तक करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर ये स्वर्ण आभूषण उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार बेचे जाएंगे। यहां ऊपर विनिर्दिष्ट स्वर्ण आमूषणों के संबंध में विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार प्रकाशित किया गया है, जो तथापि उक्त विवरण में किसी बुटि, मिथ्याकथन, विलोपन, विसंगति अथवा कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

तिथि : 19-10-2018 स्थान : जोधपुर

सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण षोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली. 2016 के विनियम 6 के अधीन) क्यानिकेशन एँड मार्केटिंग पाइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

६ कम्युानकशन एड माकाटग प्राइ	वट लिमटंड के लनदारा के ध्यान			
संबंधित विवरण				
पॅरिट देनदार का नाम	साई कम्युनिकेशन ऐंड मार्केंटिंग प्राइवेट रि			
पेरिट देनदार के निगमन की तिथि	25-11-2013			
धेकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार ामित / पंजीकृत है	आरओसी–दिल्ली			
पेरिट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / मेत दायित्व पहचान संख्या	U22222DL2013PTC260903			
पॅरिट हेनदार के पंजीकत कार्यालय तथा	कार्यालय सं २१० दिनीय तल ऋषभ			

3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	आरओसी–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U22222DL2013PTC260903
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	कार्यालय सं. 210, द्वितीय तल, ऋषभ टाव प्लॉट नंबर 16, कम्युनिटी सेंटर, कड़कड़डूम दिल्ली–110092
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	10-10-2018
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	08-04-2019
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	जितन मदान पंजीकरण क्रमांक : IBBI/IPA-001/IP-P00222/2017-18/10421
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई—मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	25, डीडीए एलएससी, ब्लॉक एम1, विकासपुर्र नई दिल्ली—110018 ई—मेल : cajatinmadan@yahoo.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई—मेल	25, डीडीए एलएससी, ब्लॉक एम1, विकासपुर्श नई दिल्ली—110018 ई—मेल पता : saiinsolvency@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	30-10-2018
12	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	श्रेणी (श्रेणियों) का नाम : एनए — आईआरपी व पास उपलब्ध सूचना के अनुसार

अक्षमता प्रोफेशनल के नाम 14 (क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर https://ibbi.gov.in/downloadform.html भौतिक पता : लागू नहीं एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 10–10–2018 को **साई**

13 | किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के | एनए — आईआरपी के पास उपलब्ध सूचना के

रूप में कार्य करने हेतु चिहिनत ऋण शोध

का आदेश दिया है (अधोहस्ताक्षरी को आदेश की प्रति 16—10—2018 को सम्प्रेषित की गई थीं)। **सार्ड कम्यनिकेशन ऐंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड** के लेनदारों से एतदद्वारा अपने दावों का प्रमाण 30—10—2018 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते

कम्युनिकेशन ऐंड मार्केंटिंग प्राइवेट लिमिटेड विरूद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंग करने

पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा

प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। हस्ता./-

जतिन मदान

तिथि : 18-10-2018

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल